



### ब्रैम्पटन में व्यक्तिगत और वर्चुअल समर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन 7 जून से शुरू हो रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 जून, 2021) – इस गर्मी, ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation), 5 जुलाई से 3 सितम्बर तक, व्यक्तिगत और वर्चुअल (आभासी) समर कैंप पेश करेगा। ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन, 7 जून को सुबह 6 बजे शुरू हो रहे हैं।

#### व्यक्तिगत समर कैंप

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नौ रेक्रिएशन सेंटर (Recreation Centres), बच्चों और युवाओं के लिए व्यक्तिगत समर कैंपों का आयोजन करेंगे। इन कैंपों में, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:45 बजे से शाम 5:15 तक, गोम्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स जैसी गतिविधियां और 2 अगस्त तक का छोटा सप्ताह शामिल है।

इस समय व्यक्तिगत समर कैंपों की अनुमति, ओनटैरियो सरकार के द्वारा दी गई है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इन कैंपों में शामिल होने वाले लोगों और स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से बने हुए प्रोटोकॉल लागू कर रही है। भागीदारों के लिए हर समय इनडोर और आउटडोर जगहों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है, जब शारीरिक दूरी संभव न हो। कैंप के भागीदारों को टोलियों में बांटा जाएगा, जो एक-दूसरे से बातचीत नहीं करेंगी। बड़ी हुई सफाई प्रक्रियाएं, रोज़ाना स्क्रीनिंग जैसे उपाय लागू किए जाएंगे।

[व्यक्तिगत समर कैंप में स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में पूरे विवरणों के लिए यहां क्लिक करें \(Click here for full details on in-person summer camp health and safety\)](#)

फ़ीस अलग-अलग हैं। रजिस्टर करने के लिए 311 पर फोन करें या [www.brampton.ca/reccamps](http://www.brampton.ca/reccamps) पर जाएं।

#### वर्चुअल समर कैंप

लगातार दूसरे वर्ष, ब्रैम्पटन में बच्चे और युवा, वर्चुअल समर कैंपों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कैंप, सोमवार से शुक्रवार, प्रतिदिन 1.5 घंटे के लिए लगेंगे। इनके शुरू होने का समय, प्रोग्राम के मुताबिक अलग-अलग होगा। सभी प्रोग्रामों का नेतृत्व, WebEx के द्वारा ब्रैम्पटन रेक्रिएशन के कुशल इंस्ट्रक्टरों द्वारा किया जाएगा।

साप्ताहिक वर्चुअल कैंप में शामिल होने की फीस 75 डॉलर है, जिसमें 25 डॉलर की वापस न करने योग्य सामग्री किट शामिल है। भागीदारों को, पिक-अप स्थानों और समय संबंधी विवरणों के साथ एक निर्देश ईमेल भेजी जाएगी।

वर्चुअल कैंप के लिए रजिस्टर करने की अंतिम तारीख, कैंप के शुरू होने से पहले वाले शुक्रवार को है। रजिस्टर करने के लिए 311 पर फोन करें या [www.brampton.ca/reccamps](http://www.brampton.ca/reccamps) पर जाएं।

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)